



## \*प्रेसनोट / सराहनीय कार्य\*

\* (पत्रांक-190/2021 दिनांक 12.07.2021)\*

दिनांक- 12.07.2021 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

### अथक प्रयास से 24 घण्टे के अन्दर पीडिता/अपहृता को सकुशल बरामद किया गया

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सचिन्द्र पटेल के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के पर्यवेक्षण तथा श्रीमान् क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज के नेतृत्व में थाना विशुनपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 143/2021 धारा 363 भादवि से सम्बंधित पीडिता/अपहृता को थाना विशुनपुरा व सर्विलांस टीम की मदद से अथक प्रयास कर 24 घण्टे के अन्दर आज दिनांक 12.07.2021 को सकुशल बरामद कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### बरामदगी करने वाली टीम:-

- 1.थानाध्यक्ष संजय कुमार थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
- 2.उ0नि0 संतराज यादव थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
- 3.क0आ0 सुशील सिंह – सर्विलांस सेल जनपद कुशीनगर
- 4.म0का0 सुमन यादव थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

### दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार व अपहृता सकुशल बरामद-

#### थाना नेबुआ नौरंगिया-

थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस टीम द्वारा एक नफर वांछित अभियुक्त भीम मध्देशिय S/O पिन्दू मध्देशिया सा0 शिवपुर बुजुर्ग थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर संबंधित मु0अ0सं0 193/21 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट व मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता/पीडिता को बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी-

#### थाना खड्डा-

थाना खड्डा पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त जलाधर पुर स्व0 हरीवंश सा0 कोहरगड्डी थाना खड्डा जनपद कुशीनगर के पास से चोरी की 15 अदद लोहे की पाइप बरामद कर सम्बंधित मु0अ0सं0 145/21 धारा 379/411 भादवि में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

#### थाना हनुमानगंज-

थाना हनुमानगंज पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त सूरज कुमार पुत्र सन्त चौधरी साकिन नौरंगिया थाना नौरंगिया जनपद पश्चिमी चम्पारण (बिहार) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-86/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 46 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

## कार्यवाही एक नजर में =

- 1.मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान- 349 वाहन।
2. 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-42,अभि0-143।
- 3.आबकारी अधिनियम में कार्यवाही-मु0-01,अभि0-01,बरामदगी-10 ली0 कच्ची शराब।
- 4.वाछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(02)
- 5.जनपद में कुल गिरफ्तारी -(कुल-49)

मीडिया सेल  
जनपद कुशीनगर